

Date: 08-07-2024

To,
The Manager,
Department of Corporate Services
BSE LTD.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI- 400 001

<u>Sub: Intimation of submission of Newspaper Publication</u>
Ref: Raghav Productivity Enhancers Limited, Scrip Code: 539837

Dear Sir

With reference to the above subject, and pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper advertisement for "Information regarding 15th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual means published on 8th July, 2024 in Financial Express (English) and Nafa Nuksan (Hindi).

You are kindly take above in your records and oblige

Thanking You

Yours Faithfully For Raghav Productivity Enhancers Limited

Neha Rathi (Company Secretary & Compliance Officer) M.No.: A38807



Astrojudge बताएगा आपके बच्चे की पर्सनिलिटी

गुरुग्राम बेस्ड एस्ट्रोजज स्टार्टअप की शुरूआत वर्ष 2019 में अनिरुद्ध गोस्वामी और पुष्पांजलि बैनर्जी ने की। वेदिक एस्टोलॉजी के साथ वे पेरेंटस की लाइफ को बैटर बनाना चाहते हैं। अभी तक करीब 75000 अभिभावकों तक पहुंच बना ली है। अनिरुद्ध के अनुसार बच्चों का लालन-पालन बिलकुल भी सरल काम नहीं है। यह काफी चैलेंजिंग टास्क है और जीवन को अनुभवों का नया संसार देता है। हर माता-पिता अपनी संतान के लिये वह सब करना चाहते हैं जो उसके जीवन को संवार दे, कॅरियर को नई ऊंचाई दे दे। जब अनिरुद्ध और पुष्पांजलि की पहली संतान जन्म लेने वाली थी, तो वे उसके व्यक्तित्व के विषय में पहले से ही जान लेना चाहते थे। अनिरुद्ध करीब दस वर्ष से वेदिक एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे थे और ऐसे में उनके पास ज्ञान था। अपनी पुत्री के स्वभाव के बारे में पहले से ही जानकारी ले ली। यह विचार आया कि यह जानकारी और माता-पिता भी लेना चाहेंगे और इसी आइंडिया के साथ एस्ट्रोजज की शुरूआत हुई। एंटरप्रेन्योर कपल पेरेंट्स को अपनी संतान को बेहतर समझने में मदद करता है। बच्चे की ताकत, हॉबी, पैशन, कॅरियर, इमोशंस, पर्सनेलिटी आदि की जानकारी वेदिक एस्टोलॉजी से मिल सकती है। एस्टोजज दरअसल में एक फ्लैगशिप रिपोर्ट निकालता है. जिसे 'योअर चाइल्ड फर्स्ट एस्ट्रो' रिपोर्ट कहा जाता है। यह बर्थ चार्ट के आधार पर तैयारी की जाती है। मकसद यही है कि पेरेंटिंग को मजेदार बनाया जाये।

वेदिक एस्ट्रोलॉजी

ज्योतिष शास्त्र या वेदिक एस्ट्रोलॉजी भारत में ही जन्मी और इतिहास करीब चार हजार वर्ष पुराना हो सकता है। यह कर्म यानि हमारे एक्शंस का हिंदू कॉन्सेप्ट है। यह हमारे भाग्य के बारे में जानकारी दे सकता है। एस्ट्रोजज की बात करें तो यह नेटल एस्टोलॉजी पर फोकस करता है। यह शिशु के बर्थ चार्ट का आकलन करता है। अनरिद्ध के अनुसार हमने एस्ट्रोलॉजी को भविष्य पर केन्द्रित करने का टूल मान लिया है जबकि हमारे पूर्वज इसे यूनिवर्स के साथ हमारे मिस्टिकल



कनेक्शन के आधार पर समझने का प्रयास करते थे। पृष्पांजलि को इंटरनेशनल ब्राण्ड बिल्डिंग, मार्केटिंग का अनुभव है। अनिरुद्ध को बचपन से ही मिस्टिकल साइंस के प्रति अट्रेक्शन रहा और उन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही रेकी, प्राणिक हीलिंग सीख ली। इसके बाद वेदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिया। करीब 16 वर्ष तक कॉर्पोरेट लॉयर भी रहे हैं।

चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट

स्टार्टअप एस्ट्रोजज दो चीजें ऑफर करता है- योअर चाइल्ड फर्स्ट एस्ट्रो रिपोर्ट और दूसरा योअर कम्प्लीट एस्ट्रो प्रोफाइल फॉर एडल्ट्स। एस्ट्रो रिपोर्ट करीब 70 पेज की होती है और यह पेरेंट्स को बच्चे की पर्सनेलिटी, स्ट्रेंथ और चैलेंजेज के बारे में बताती है। इससे उन्हें बच्चे की परवरिश में आसानी होती है। इसमें बच्चे के लको कलर्स, जैमस्टोन और नेम सलैक्शन की

Entrepreneur रिपोर्ट में 12 वर्ष तक की आय तक टाइमलाइन बेस्ड फ्यूचर की भविष्यवाणी नहीं की जाती। यह एस्ट्रो रिपोर्ट बच्चे के स्वभाव की समझने का टूल है। रिपोर्ट करीब 12 से 48 घंटे में बनाई जाती है और इसकी भाषा समझने में

बच्चे के विकास पर गाइड करता है। योअर कम्प्लीट एस्ट्रो प्रोफाइल डिटेल्ड रिपोर्ट एडल्ट्स के लिये होती है और इसमें पर्सनेलिटी, कार्मिक लैसन, कॅरियर, रिलेशनशिप की जानकारी होती है। इसे अक्टूबर, 2023 में लांच किया गया था। स्टार्टअप एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट के लिये 1699 रुपये चार्ज लेता है। एडल्ट रिपोर्ट की कॉस्ट ९९९ रुपये है।

टीम एंड ऑपरेशंस

वर्तमान में एस्ट्रोजज के पास 14 सदस्यों की टीम है। इनमें करीब 12 वर्ष का अनुभव रखने वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं। प्रत्येक रिपोर्ट क्वालिटी कन्ट्रोल के साथ तैयारी होती है और आखिर में स्टार्टअप फाउंडर्स इसे चैक करते हैं। एस्ट्रोजज वेब एप्लीकेशन के माध्यम से ऑपरेट करती है। उनका मोबाइल एप नहीं है। वेबसाइट से ही रिपोर्ट दी जाती है। प्लेटफॉर्म डेटा प्राइवेसी पर सख्त है। क्लाइंट की सूचना किसी से शेयर नहीं की जाती। तक बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।

एस्ट्रोजज नई दिल्ली आधारित स्प्रिच्युअल टेक स्टार्टअप एस्ट्रोटॉक और नोएडा बेस्ड इन्स्टाएस्ट्रो से प्रतिस्पर्धा कर रही है। पुष्पांजलि के अनुसार वे बच्चे की पर्सनेलाइज्ड रिपोर्ट पर फोकस करते हैं।

8 वर्षीय आर्यन के माता-पिता इस बात से चिंतित थे कि आर्यन काफी शांत रहता है लेकिन उसे चीजों की डिटेल में जाना पसंद है। जब एस्ट्रोजज से उनकी रिपोर्ट बनवाई तो पता चला कि आर्यन एनेलिटिकल और क्रिएटिव एबिलिटीज रखने वाला बच्चा है। वह इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद माता-पिता ने उसे रोबोटिक्स क्लब, आर्ट क्लासेज में एनरोल किया ताकि उसकी पसंद को आगे बढ़ाया जा सके। उनके अनुसार वे चाहते हैं कि वेदिक एस्ट्रोलॉजी से लोग लाभ लें और अपने मजब्रत पॉइंट्स को जानें।

पयुचर प्लान

इन्डियन एस्ट्रो मार्केट करीब 30,000 करोड़ रुपये का है और अनुमान है कि वर्ष 2025 में यह 50,000 करोड़ रुपये पर पहुंच जायेगा। फिक्की और अर्नेस्ट एंड यंग की जॉइंट रिपोर्ट में यह बताया गया है। अनिरुद्ध के अनुसार वे करीब 75000 कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। इनमें 25 से 45 वर्ष के पेरेंट्स, यंग एडल्ट्स शामिल हैं। विस्तार इंटरनेशनल लेवल पर हो चुका है और इसमें अमेरिका भी शामिल है। आगे कनाडा और ब्रिटेन में एंटर करने का प्लान है। वर्ष 2026 तक ग्लोबली करीब एक मिलियन लोगों तक पहंचने की योजना है। एन्यूअल रेवेन्यू करीब 25 करोड़

श्व जनसंख	या			
	दुनिया	की	ताजा	ज

<u>જ્યા</u>	
🛮 दुनिया की ताजा जनसंख्या	8,120,130,068
🛮 इस वर्ष हुये जन्म	69,048,882
 आज हुये जन्म 	253,228
🛮 इस वर्ष हुई मौतें	31,243,890
 आज हुई मौतें 	114,583
 जनसंख्या में इस वर्ष की निवल बढोतरी 	37.804.993

CIICA	
स्वास्थ्य पर आज दुनिया में हुआ सरकारी खर्च	\$ 11,793,576,63
शिक्षा पर आज दुनिया में हुआ सरकारी खर्च	\$ 7,833,203,67
सेना पर आज दुनिया में हुआ सरकारी खर्च	\$ 3,281,902,31
कारों का इस वर्ष हुआ उत्पादन	44,935,22
साईकिलों का इस वर्ष हुआ उत्पादन	81,348,93
कम्प्यूटरों की इस वर्ष हुई बिक्री	119.045.13

III) YII	
इस वर्ष प्रकाशित नई पुस्तकें	1,449,106
अखबारों की आज की प्रसार संख्या	315,946,562
टेलीविजन सेटों की आज हुई बिक्री	465,209
मोबाइल फोन्स की आज हुई बिक्री	5,293,498
वीडियोगेम्स पर हुआ आज का व्यय डॉलर में	\$ 226,090,381
इंटरनेट यूजरों की संख्या	6,237,312,410
आज भेजे गये ई-मेल	211,483,183,522
ब्लॉग्स पर आज हुई पोस्ट	7,536,893

इस वर्ष हुई वनों की कटाई हेक्टेयर में	2,674,063
क्षरण से इस वर्ष हुई भूमि की हानि हेक्टेयर में	3,600,012
C O2 का इस वर्ष का उत्सर्जन टन में	18,851,726,951
मरुस्थलीकरण इस वर्ष हेक्टेयर में	6,170,291
कारखानों से इस वर्ष हुआ विषैला उत्सर्जन टन में	5,035,152

आज किये गये ट्वीट

गूगल पर आज हुई सर्च

कुपावित लागा का ताजा संख्या	880,083,914
अधिक वजनी लोगों की ताजा संख्या	1,763,639,971
मोटे लोगों की संख्या	865,110,899
भूख से आज हुई मौतों की संख्या	21,08
यूएस में मोटापा जनित बीमारियों पर आज हुआ खर्च डॉलर में	\$ 462,385,977

 दुनिया में ऊर्जा की आज की खपत मेगावॉट में इसमें 	321,857,620
परम्परागत स्रोतों से	273,983,383
 नवीकरणीय स्रोतों से 	48,468,95
 धरती तक आज पहुंची सौर ऊर्जा मेगावॉट में 	2,016,775,846,276
 कच्चे तेल का आज हुआ उत्पादन बैरल में 	66,012,92
 कच्चे तेल की शेष मात्रा बैरल में 	1,363,695,613,80
कितने दिन का तेल शेष	14,22

कोयला कितना शेष

■ सं	ामक रोगों से इस वर्ष हुई मौतें	
■ इन	वर्ष पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की हुई	मौतें

 इस वर्ष हुये गर्भपात जन्म के दौरान इस वर्ष हुई मां की मौतें

 एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या एचआईवी से इस वर्ष हुई मौतें

मलेरिया से हुई मौतों की संख्या

 सिगरेटों की आज हुई खपत धूम्रपान से इस वर्ष हुई मौतें

202,752 10,438,011,523 2,570,279 1,285,950 551,353 \$ 205,687,182,696

56,167

6,674,617

3,908,121

158,919

864,327

4,222,717

23,095,061

45,607,659

4,272,692,945,670

668,907,965

7,622,448,786

 सड़क दुर्घटना में इस वर्ष हुई मौतें 694,056

जीसीसी और स्टार्टअप्स ने क्रिएट किए ८ करोड जॉब्स

नई दिल्ली@एजेन्सी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) और स्टार्टअप्स भारत में नौकरियां पैदा करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गत पांच वर्षों में इन दोनों क्षेत्रों ने साथ मिलकर आठ करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव सुमिता डावरा की ओर से यह जानकारी राष्ट्रीय राजधानी में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) और एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (ईएफआई) के एक इवेंट में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के हवाले से दी गई।

उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय द्वारा श्रम कानूनों का गैर-अपराधीकरण और वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढाने के कारण व्यापार में आसानी हुई है। सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण जैसे सुधारों से भारत की वृद्धि दर को और सहारा मिलेगा। डावरा ने आग कहा 29 श्रम कानूना का चार श्रम कानूना म बदला जा चुका है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल को एक्टिव किया जा चुका है। स्किल मंत्रालय की ओर से मिले डेटा को एकीकृत किया जा चुका है। भारत में एक करोड़ के करीब गिग वर्कर्स हैं और वर्ष 2030 तक इनकी संख्या बढ़कर 2.4 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के काम पर प्रभाव को स्टडी कर रही है।

Statutory Compliance Chart for the Month of February-2021

Income Tax	
Nature	Due Date
Due date for issue of TDS Certificate for tax deducted under section 194-1A/S/IB/M in the month of April, 2024	15th July 2024
Quarterly statement of TCS deposited for the quarter ending June 30, 2024	15th July 2024
Upload the declarations received from recipients in Form No. 15G/15H during the quarter ending June, 2024	15th July 2024
Quarterly TCS certificate in respect of tax collected by any person for the quarter ending June 30, 2024	30th July 2024
Due date for furnishing of challan-cum-statement in respect of tax deducted under section 194-IA/IB/M/S in the month of May, 2024	30th July 2024
Statement of Specified Services or E-Commerce Supply or Services	30th July 2024
Quarterly statement of TDS in Form 24Q/26Q/27Q deposited for the quarter ending June 30, 2024	31st July 2024
Return of income for the Assessment Year 2024-25 for all assessee other than (a) corporate assessee or (b) non-corporate assessee (whose books of account are required to be audited) or (c) working partner of a firm whose accounts are required to be audited or the spouse of such partner if the provisions of section 5A applies to such spouse or (d) an assessee who is required to furnish a report under section 92E.	31st July 2024
Certificate of foreign inward remittance (if due date of submission of return of income is July 31, 2024)	31st July 2

GST			
Return	Turnover	Month	Due Date
GSTR 1	Turnover >5 crore and those opting out of QRMP	June 2024	11th July 2024
GSTR 3B	Who opted for Monthly	June 2024	20th July 2024
GSTR 1	Who opted for Quarterly	June 2024	13th July 2024
GSTR 3B	Who opted for Quarterly	June 2024	22 July 2024

EPF/ESI	
Due Date	
15th July 2024	
15th July 2024	
15th July 2024	

साइबर सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन 25 जुलाई को खतरों से निपटने में सुरक्षा टीमें भी अत्यधिक कुशल हो गई हैं।

नई दिल्ली@आईएएनएस। अग्रणी उद्यम पूंजी फर्म एक्सेल की ओर से 25 जुलाई को बेंगलुरु में भारत के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारत में प्रारंभिक चरण के साइबरसिक्योरिटी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढावा देने के लिए दुनिया भर के सुरक्षा ऑपरेटर, सीआईएसओ और अन्य लोग शामिल होंगे।

शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को अपने साइबर सिक्योरिटी इनोवेशंस को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, वही फोनपे, ग्रो और फ्लिपकार्ट जैसी बडी कंपनियों और टेक यनिकॉर्न के सीआईएसओ के एक समृह के समक्ष अपनी खासियत बताने का भी अवसर होगा। एक्सेल के पार्टनर प्रयांक स्वरूप ने कहा कि भारत में बड़ी सॉफ्टवेयर और उपभोक्ता कंपनियों की तेजी से वृद्धि के साथ, बढ़ते

एक्सेल ने दुनिया भर में 50 से अधिक साइबर सिक्योरिटी कंपनियों की फंडिंग की है। इनमें से कई कंपनियों के फाउंडर्स भारतीय मूल के हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इन कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा, एप्लीकेशन सरक्षा और सरक्षा संचालन में एआई जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनियों की अगली पीढ़ी का निर्माण करने के महत्वपूर्ण अवसर हैं। भारत के साइबर सुरक्षा परिदृश्य में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2023 तक 30 प्रतिशत से अधिक की सीएजीआर के साथ, 2023 में सिक्योरिटी का बाजार लगभग छह बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अकेले उत्पाद खंड में 3.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई।

टाइटन ने ओपन किए 61 नये स्टोर्स

नयी दिल्ली@पीटीआई। आभूषण और घड़ी आधार पर आय वृद्धि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नौ प्रतिशत रही है। टाटा समूह की कंपनी ने कहा कि उसने अप्रैल-जून तिमाही में 61 नई दुकानें खोली हैं। इससे उसकी दुकानों की कुल संख्या 3,096 हो गई। टाइटन के कुल कारोबार में आभूषण खंड की हिस्सेदारी लगभग ने उपभोक्ता मांग पर असर डाला।

बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाइंटन की एकल खंड में घरेल बाजार में नौ प्रतिशत वृद्धि रही और कंपनी ने आभूषण की 34 दुकानें खोलीं। कंपनी ने कहा कि अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (तनिष्क सेकेंडरी बिक्री) दहाई अंक की वृद्धि देखी गई। हालांकि, सोने की ऊंची कीमतों और उनकी निरंतर मजबूती

पेरिस स्थित गैलरीज् लाफायेत में भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट

नई दिल्ली@एजेंसी

एफिल टॉवर पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का सफल तापूर्वक कार्यान्वयन हो गया है। अब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) की तरफ से पेरिस ओलंपिक से पहले, ई-

कॉमर्स और रकम भुगतान के लिए पेरिस के हौसमैन में गैलेरीज लाफायेट के प्रमुख स्टोर में से एक के साथ साझेदारी की है। यह ई-कॉमर्स और सुरक्षित रकम भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली फांसीसी पेमेंट गेटवे लायरा के साथ साझेदारी के तहत है। 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में बड़ी संख्या में भारतीय दर्शकों के आने

फांस और मोनाको में भारत के राजदूत जावेद अशरफ के अनुसार यह फ्रांस में यूपीआई की व्यापक स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त करेगा और अंतर्राष्ट्रीयकरण डिजिटल भुगतान में यूपीआई को और अधिक समर्थन के साथ स्थापित करेगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल के सीईओ रितेश शुक्ला के अनुसार पेरिस में गैलरीज लाफायेट के साथ हमारा सहयोग न केवल देश के बाहर यूपीआई भुगतान को सक्षम बनाता है, बल्कि भारतीय



पर्यटकों के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित सीमा पार भुगतान पद्धति के रूप में यूपीआई को अपनाने को भी बढावा देता है।

एनपीसीआई के अनुसार इस साझेदारी से हर साल पेरिस आने वाले बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों को लाभ होगा, जिससे उन्हें गैलरीज लाफायेट फ्लैगशिप स्टोर पर यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। लायरा इंडिया के चेयरमैन क्रिस्टोफ मैरिएट के अनुसार लायरा यूरोप में पहली बार पेरिस के प्रतिष्ठित डिपार्टमेंटल स्टोर गैलेरीज् लाफायेट हॉसमैन में यूपीआई की इन-स्टोर स्वीकृति प्रदान करके खुश है। एनपीसीआई ने यह भी उल्लेख किया कि इस पहल का उद्देश्य फ्रांस और यूरोप में यूपीआई की उपस्थिति को व्यापक बनाना है, जिससे सुरक्षित भगतान करना संभव हो सके और इसे और व्यापक तरीके से अपनाया जा सके।

RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LTD.

की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

स्थानः जयपुर

दिनांक : ०८ जुलाई, २०२४

पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस ३६, चौथी मंजिल, सेंट्रल स्पाइन, अलंकार प्लाजा, विधाधर नगर, जयपुर - ३०२०२३ CIN: L27109RJ2009PLC030511

Tel & Fax: 0141-2235760/761, E-mail: rammingmass@gmail.com, Website: www.rammingmass.com

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 15वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सचना

राघव प्रोडिक्टविटी एन्हांसर लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की १५वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') एजीएम नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए शनिवार, 3 अगस्त 2024 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फेंसिंग ('वीसी') और ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए आयोजित की जाएगी व यह बैठक सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, 20/2020 दिनांक ५ मई, २०२०, २२/२०२० दिनांक १५ जून, २०२०, ३३/२०२० दिनांक २८ सितंबर, २०२०, ३९/२०२० दिनांक ३१ दिसंबर, २०२०, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 एवं ०९/२०२३ दिनांक २५ सितंबर, २०२३ के साथ ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अन्य परिपत्र और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक १३ मई, २०२२ (इसके बाद सामुहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) की अनुपालना के तहत है ।

परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष २०२३-२४ ("वार्षिक रिपोर्ट २०२३-२४") के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कंपनी की वेबसाइट www.rammingmass.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित किसी भी संकल्प पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों के पास एजीएम से पहले या एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सविधा का उपयोग करके अपना वोट डालने का विकल्प होता है। रिमोट ई-वोटिंग

बोर्ड ने 17 मई, 2024 को हुई अपनी बैठक में रुपये 0.90/- प्रति पूर्ण पेडअप इक्रिटी शेयर के ॲतिम लाभांश की सिफारिश की है। वितीय वर्ष २०२४ के लिए अंतिम लाभांश के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड तिथि २७ जुलाई, २०२४ है। अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में अनुमोद्त किया जाता है, तो विभिन्न ऑनलाइन हस्तांतरण मोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा की दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उन सदस्यों को, जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है, को भुगतान किया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपने केवाईसी को अपडेट करें ताकि भुगतान तिथि पर सीधे उनके बैंक खाते में लाभांश प्रदान किया जा सके।

शेयरधारक जो अपना ईमेल पता/बैंक खाता पंजीकृत करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:-

अमटारयलाइम्ड ह्याल्डग	कृपचा डामट खाता विवरण (साइएसएल-१६ अक लामाथा आइडा या एनएसडाएल-१६ अक डापाआइडा + साएलआइडा),
	नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन और आधार (स्व-सत्यापित) कंपनी को cs@ram-
	mingmass.com यो रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को पर ujata@bigshareonline.com पर
	ई-मेल द्वारा प्रदान करें।

फिजिकल होल्डिंग कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे), पैन (स्व-सत्यापित), आधार (स्व-सत्यापित) की रकैन प्रति कंपनी को cs@rammingmas.com पर या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को पर ujata@bigshareonline.com पर ई-मेल द्वारा प्रदान करें।

वित्त अधिनियम २०२० के अनुपालन में लाभांश आय शेयरधारकों के लिये १ अप्रेल, २०२० से कर योग्य होगी और कंपनी के लिये निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि विभिन्न श्रेणियों पर निर्धारित दरों के लिए वह वित्त अधिनियम, २०२० और उसके संशोधनों को देखें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए (भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट मोड में शेयरों के मामले में) के साथ अपना पैन अपडेट करें, एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक जिसके पास पैन है और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वह tds@bigshareonline.com पर १५ जुलाई, २०२४ को पूर्वाह ११:५९ बजे तक ई-मेल द्वारा स्रोत पर कर की गैर-कटोती का लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या १५जी/१५एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो कर 20 फीसदी की उच्च दर से काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास के देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, जो आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के अधीन हैं अर्थात कोई स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी प्रमाणपत्र, फॉर्म १०एफ या कोई अन्य दस्तावेज जो लाभ उठाने के लिए आवश्यक हो सकता है उन्हें tds@bigshareonline.com पर एक ईमेल के जरिए भेजकर कर संधि लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त घोषणाओं और दस्तावेजों को शेयरधारकों द्वारा १५ जुलाई २०२४ को रात्रि ११:५९ बजे तक जमा करने की आवश्यकता है।

> निदेशक मंडल के आदेश से राघव प्रोडक्टीविटी एनहांसर्स लिमिटेड

नेहा राठी (कंपनी सचिव)





SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

Corporate Office: Gri SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

F-Auction Sale Notice of 30 days for E-Auction Sale Notice of 30 days for Sale of immovable Asset(s) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of SMFG India Credit Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)/Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date and time mentioned herein below, for recovery of the dues mentioned herein below and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to SMFG India Credit Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)/Secured Creditor from the Borrowers and Guarantor(s) mentioned herein below. The reserve price, Earnest Money Deposit (EMD) and last date of EMD deposit is also mentioned herein below

Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date	Description of the	Reserve Price, EMD & Last	
/ Loan Account	and Amount	Immovable property	Date of Submission of EMD	
1. BUDDHA INDIA HOTELS PRIVATE LIMITED 2. ANIL TEKRIWAL 3. ASHWINI TEKRIWAL 4. AKASH KUMAR 5. NIRMAL KUMAR 6. BUDDHA RESORTS PRIVATE LIMITED (Loan Account No 191101310411528 & 191101310739452)	SIX THOUSAND ONE HUNDRED AND	ASSET(S): SECURED ASSET NO.(1): OFFICE SPACE NO - C - 54, ONBASEMENT FLOOR, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR,	Last date of EMD Deposit:	Date: 10/08/2024 Time:11:00 am to 01:00 pm (with unlimited extensions of 5 minute each)

For detailed of the sale, please contact Mohd Amaan 7007829555; Sanjay Singh Rathore -9993460061 and also for the detailed terms and conditions of the sale refer to the link provided in SMFG India Credit Company Limited/Secured Creditor's website i.e. www.smfgindiacredit.com SD/-, Authorised Officer

Date: 08/07/2024, Place: Lucknow SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

RACHAV PRODUCTIVITY **ENHANCERS LTD.**

Registered Office: Office No.36, 4th Floor, Alankar Plaza, Central Spine, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302023 CIN: L27109RJ2009PLC030511 I P: +91 141 2235760-61

(Formerly - Raghav Ramming Mass Ltd.) E: rammingmass@gmail.com | W: www.rammingmass.com

INFORMATION REGARDING 15TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS

The 15th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Raghav Productivity Enhancers Limited "The Company") will be held on **Saturday, 3rd August 2024 at 12:00 P.M.** through Video Conferencing "VC") and audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred as the "the Circulars") to transact the business as set out in the notice of AGM.

In accordance with the Circulars, Notice of AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 ("Annual Report 2023-24"), will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company. Annual Report 2023-24 will also be available on the website of the company at www.rammingmass.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

Remote e-voting facility is provided to Members to cast their votes on any of the resolutions set out in the Notice of AGM. Members have the option to cast their vote using the remote e-voting facility prior to AGM or during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of the AGM.

The Board in their meeting held on May 17, 2024 has recommended final dividend of Rs. 0.90/- per fully paid up equity share. The record date for the purpose of final dividend for the fiscal year 2024 is July 27, 2024. The final dividend, if approved at the AGM will be paid within a period of 30 days from the date of declaration electronically through various online transfer modes to those members who have updated their bank account details. For members who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/cheques will be sent to their registered addresses. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their KYC with their depositories to receive dividend directly into their bank account on the payout date.

Shareholders who wish to register their email addresses/ bank account mandate may follow the below instructions:

Dematerialized Holding

Please provide Demat Account Details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID+ CLID), Name, client master or copy of consolidated Account statement, PAN and AADHAR (self-attested) by e-mail to the Company at cs@rammingmass.com or to Registrar and Transfer Agent at ujata@bigshareonline.com

Physical Holding

Place : Jaipur Date : July 8, 2024

Please provide necessary details like folio no. name of shareholder, scanned copy of share certificate (front and back), PAN (self-attested), Aadhaar (self-attested) by e-mail to the Company at cs@rammingmas.com or to Registrar and Transfer Agent at ujata@bigshareonline.com

Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Company/ RTA (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode) A Resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G/15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to tds@bigshareonline.com by 11:59 P.M. IST on July 15, 2024. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to tds@bigshareonline.com. The aforesaid declarations and documents need to be submitted by the shareholders by 11:59 P.M. IST on July 15, 2024.

> By order of the Board For Raghav Productivity Enhancers Limited

Sd/ Neha Rathi (Company Secretary) IndiaShelter

INDIA SHELTER FINANCE CORPO

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PRO

whereas, The Undersigned Being The Authorised Officer Of The India Shelter Finance And Corporation L Financia Assests And Enforcement (security) Interest Act, 2002 And in Exercise Of Power Conferred Under Interest (enforcement, Rules 2002), asserd A Demand Notice On The Date Noted Against The Account As and Also The Owner Of The Property/surery To Repay The Amount Within 60 Days From The Date Of The Under The Other Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hersey Green To The Date Of The Second Conference of the Conference of the Property Research (Notice Interest) Green To Horse Noted Screwer fair Taken Symbotic Plassession Of The Propertyles Described Herrin Below in Exercise Of The Powers said Act Read With Rules 8 & 9 Of The Said Rules On The Dates Mentioned Against Each Account, Nov. Ti is Hereby Caulioned Not To Deal With The Propertyles And Any Dealing With The Propertyles Will Ba corporation List For An Amount Mentioned As Below And Interest Thereon, Costs, Etc.

NAME OF THE BORROWER/GUARANTOR (OWNER OF THE PROPERTY) & LOAN ACCOUNT NUMBER	DESCRIPTION OF THE CHARGED /MORTGAGED PROPERTY(ALL THE PART & PARCEL OF THE PROPERTY CONSISTING OF)	DT. C AN DATE
 Mr./ Mrs. Urmila Singh Mr./ Mrs. Amar Singh Mr./ Mrs. Gyan Chandra All Above At: 4/61 Gandhi Nagar, Shuklagani Near Viklang Gate Unnao, Kanpur 209861, Uttar Pradesh Also at: Arazi No.431 Min Gram 	All Piece And Parcel Of All That Piece And Parcel Of Property Bearing Arazi No. 431 Min. Gram Netwes Parg Skandsappur Teh Urinau. Kanpur U.P. Admesuring-51.25 Sq. Mtr. BOUNDARY: East-Arazi Of Bangail Bahu, West-Pict Of Qualpu J, North 12 Feet Wide Resta, South-Arazi Of Others	Rs. 522 Twenty T Eighty Nir 2024 Tor
Netuwa Parg Sikandarpur Teh Unnao	Kanpur U.P 209861 Uttar Pradesh	

LOAN ACCOUNT NO. HL11CHLONS000005001867

FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT MR. SUDHIRTOMAR (



Aapki Ummeed Ka Kh

(A Scheduled Commercia

Zonal Office: S-24/1-2, First Floor, Mahavir Nagar, Orderly Bazaar, Near Ma Registered Office: Utkarsh Tower, NH - 31 (Airport Road), Sehmalpur, Kazi Sa

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following borrower/s have defaulted in the repayment obtained by them from Utkarsh Small Finance Bank Ltd, and the loan has been classi Notices under Section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets 2002 were issued to them on their last known address/es as provided to the bank by the of information of the said borrowers enumerated below, the borrowers are being inf

Sr.	Name of the	Name of the Borrowers of	19
No.	Account	the property	
1 1352050000000132		Mr. Babu Ram Shukla (Borrower/Mortgagor) Mr. Shashi Shankar Shukla (Co-Applicant)	0:

Description of Property/ies: All that part and parcel of arazi no. 102 area measuring Pargana- Mirzapur Chauhari, Tehsil, Soraon, District- Prayagraj, U.P.-211013 Bounde Part of Arazi North: Plot of Saiduddin South: 12It Wide Road.

The above borrower/s and/or their guarantors (wherever applicable) are advised to make of 60 days from the date of issuance of notice under Section 13(2), failing which furthe from the date of issuance of the notice as per the provisions of Securitization and enforcement (Security) interest Act, 2002.

Date: 08/07/2024 Place: Varanasi

HISAR METAL INDUSTRIES

Registered Office & Works: Near Industrial Development Office Phone: 01662-220067, 220367, 220738 Fax 0'hisarmetal.com, vchugh@hisarmetal.com V Email: Info@hisarmetal.com, vchugh@hisarmetal.com \ CIN: L74899HR1990PLC030937 NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Ac-and Protection Fund (IEPF) Author

In terms of provisions of Section 124(6) of the Companies A Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Rules, 2016, as amended from time to time ("the Rules"), the Co shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed years, to the Demat account of Investor Education and Protecti manner as prescribed under the Rules

In compliance with the said Rules, the Company is communicating shareholders whose shares are liable to be transferred to the Differ Company has also uploaded on its website www.hisarm shareholders whose shares are liable to be transferred to the Differ Shareholders may please note that the Company shall transfer in the Shareholders may please note that the Company shall transfer in the Shareholders may please note that the Company shall transfer in the Shareholders may please note that the Company shall transfer in the Shareholders may please note that the Company shall transfer in the Shareholders may please note that the Company shall transfer in the Shareholders may please note that the Company shall transfer in the Shareholders may be shareholders in the Shareholders may be shareholders may be shareholders in the Shareholders may be shareholders may by them in physical or demat form to the Demat account of IEPF days from 26th October 2024 being the due date as prescribed

The shareholders holding shares in physical form and whose sha may note that the Company would be issuing duplicate share share certificate(s) held by them for the purpose of transfer Authority and upon such issue of duplicate share certificate(s), which stands registered in their name will stand automatically car which stands registered in their name will stand automatically car-shareholders may further note that the details uploaded by the be regarded and shall be deemed adequate notice in respect issued by the Company for the purpose of transfer of shares t under the said Rules. Further the shareholders holding shares in are liable to be transferred, may note that the Company shall is corporate action where the concerned shareholders have their shares to the Demat account of IEPF Authority

The concerned Shareholders are hereby requested to claim th Financial Year 2016-17 and onwards and which remains uncla application to our RTA or Company, falling which their Shares s

The Shareholders may please note that both, the unclaimed divid and the shares transferred to the Demat account of IEPF Authorit on such shares, if any, can be claimed back by them from the procedure prescribed under the said Rules. For any informati please write to or contact the Company at vchugh@hisarme FINANCIAL SERVICES PVT LTD at D-153/A, 1st Floor, Okhla Ind - 110020, Phone:011-64732681-88, Email: admin@skylinerta.cor

Place: HISAR Date: 8th July 2024

Company Se